

Psa

Chapter 18

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

		רֹוחַ:	כְּנֵפִי-	עַל-	אָנָּדָּרָּה	וַיְשַׁעַרְתָּ	כְּרֻובָּה	עַל-	וַיְרַכְּבָּהָ	10
		וואָיָ-কে	পংখো-	প-র-	ও-ৱ-ৱ-ন-ভ-ৱ-ৱ-	ও-ৱ-ৱ-ন-ভ-ৱ-ৱ-	ক-ৱ-ৱ-ৱ-ৱ-ৱ-	প-র-	ও-ৱ-ৱ-ন-ভ-ৱ-ৱ-	
		H7307	H3671		H1675		H3742		H7392	
		שְׁחִקִּים:	עַבְיָן	מַיִם	חַשְׁכָתָ-	סְכִתוֹ	סְבִיבּוֹתָיו	סְתִרְרוֹ	חַחְתָּה	11
		בָּאָדָלָא-কে	ঘ-ন	পানী-কা	অংধেৰা-	মণ্ডপ-অপনা	চাৰো-আৰ-ৱ-সকে	ছিপাব-অপনা	অংধকাৰ	
		H7834	H5645	H4325	H2824	H5521	H5439		H2822	H7896
		אָשָׁ:	אַ-	וַיְחַלֵּ-	בָּרְךָ	עַבְרֹן	עַבְיָן	גַּגְדֹּו	מַגְנָה	12
		आ-ग-ক-ে	আ-র-ক-ো-য-ল-ে-	আ-র-ক-ো-য-ল-ে-	আ-ল-ে-	গুজ-ৰ	ব-াদ-ল-	স-া-ম-ন-ে-	স-ে-চ-ম-ক	
		H0784	H1513		H1259		H5645	H5048	H5051	
		אָשָׁ:	וַיְחַלֵּ-	בָּרְךָ	קָלוֹן	וְעַלְיוֹן	יְהוָה	בְּשִׁמְיָם	וַיְרַעַם	13
		आ-গ-ক-ে	আ-র-ক-ো-য-ল-ে-	আ-র-ক-ো-য-ল-ে-	আ-ব-াজ-অ-প-ন-ী	দ-ী	ও-প-র-ম-প-্র-ধ-ান-ন-ে	য-হ-ো-ব-া	ম-ে-আ-ক-া-শ	আ-র-গ-ৱ-জ-া
		H0784	H1513	H1259		H5414		H3068	H8064	H7481
		וַיְהִמְמָם:	בָּרְךָ	וּבְרִכִים	וַיְפִיצֶם	חַצְיוֹ	וַיְשַׁלֵּחַ			14
		আ-র-ঘ-ব-া-র-দ-ি-য-া-	ব-হ-ু-ত	আ-র-ব-ি�-জ-ল-ি�-য-াঁ	আ-র-ত-ি�-ত-ৰ-ব-ি�-ত-ৰ-ক-ি-য-া-	ত-ী-র-অ-প-ন-ে				
		H2000		H7232			H2671		H7971	
רֹוחַ	מַגְנָה	יְהוָה	מַעֲשָׂתָה	בְּלָהָלָה	מֹסְדָותָה	וַיְגַלְלֵן	מִים	אֲפִיקָה	וַיְרַאַ	15
וואָיָ-ক-ী	স-ে-স-াঁ-স	য-হ-ো-ব-া	স-ে-ড-াঁ-ট-ত-ো-ৰ-ী	জ-গ-ত-ক-ী	ন-ী-ব-ে-	ও-য-ু-ল-গ-ই	প-ান-ী-ক-ে	ত-ল	আ-র-দ-ি�-খ-া-ই-দ-ি�-য	
H7307	H5397	H3068	H1606	H8398	H4146	H1540	H4325	H0650	H7200	
		נָאָקָה:							ন-ক-া-ক	
									ন-ক-া-ক	
									H0639	
		רַבִּים:	בָּהָרַת-ס-	מִמְנִים	וְמַשְׁנִי	וְקַחְנִי	מַמְרוֹם	יְשַׁלְחָ		16
									ব-ে-জ-গ-া	
									H4325	
		מַעְשָׁי:	אַ-	כִּי-	וְמַשְׁנָאָנִי	מַאֲיָבִי	יְצִילָנִי			17
		স-ে-ম-ু-জ-ু	ম-ু-জ-ু-ন-া	ক-ো-র-ক-ি-	আ-র-স-ে-ব-ৈ-র-ি�-য-ো-ম-ে-র-ে	শ-ু	ব-ল-ব-া-ন	স-ে-শ-ত-ু-ম-ে-র-ে	চ-ু-ড-াএ-গ-া-ম-ু-জ-ু	
		H0553			H8130		H5794	H0341	H5337	
		לִיְ:	לְ-	לִמְשֹׁעַןְ	יְהוָה	וַיְהִי	אִידִי	בִּזְמָןְ	יְקַדְמָנִי	18
		ম-ে-র-ে-ল-ি-এ	ল-স-হ-া-র-া	য-হ-ো-ব-া	আ-র-হ-ু-আ-ৰ-ু	ব-ি�-প-ত-ি-ম-ে-র-ী	ম-ে-দ-ি�-ন-ৰ-ে	আ-প-ঁ-ম-ু-জ-ু-প-ৰ		
		H3068		H1961		H0343	H3117	H6923		
		בִּ:	מַעְזָה-	חַפְזִין	כִּי-	וְחַלְלָאָנִי	לִמְרָחָב	לְ-খֹלוֹ-ש-্য-ান-ম-ে-	য-ো-চ-ী-য-ান-ু	19
		ম-ে-র-ে-প-ু-জ-ু	প-্র-স-ন-ৰ-হ-ু-আ	ক-ো-র-ক-ি-	ল-ু-ড-াএ-গ-া-ম-ু-জ-ু		H4800		H3318	
		לִיְ:	לְ-	לִמְשֹׁעַןְ	יְהוָה	וְ	ל-ে-			
		H7725	H3027	H1252		H6664		H3068	H1580	20
		מַלְהָדָה:	ס-ে-এ-ল-ো-হ-ী-ম-	রְשֻׁעַתָ-	אָ-	יְהוָה	רְכֻבִי	שְׁמָרָתִי	כִּי-	21
		ম-ে-র-ে-প-ু-জ-ু	ম-ে-র-ে-প-ু-জ-ু	ক-ী-ম-ে-ন-ে	আ-র-হ-ৰ-ী-	য-হ-ো-ব-া-ক-ে	ম-া-র-ো-ক-ো	র-খ-ী-ম-ে-ন-ে	ক-ো-র-ক-ি-	
		H0430		H7561		H3808	H3068	H1870	H8104	
		מַעְנָנִי:	স-ে-অ-ধ-ৰ-ম-	লְ-	לְ-	לְ-	মַשְׁפְּתִין	כָּל-	ক-ো-র-ক-ি-	22
		স-ে-ম-ু-জ-ু	হ-া-র-ক-ু-ঁ-গ-া	ন-হ-ী-	ও-র-ব-ি�-ধ-ি�-য-াঁ	স-া-ম-ন-ে-	ন-্য-ায-ত-স-ক-ে	স-ব-	ক-ো-র-ক-ি-	
		H5493	H3808	H2708		H5048	H4941	H3605		
		מַעְנָנִי:	স-ে-অ-ধ-ৰ-ম-	অ-র-ব-চ-া-য-া	ম-ে-ন-ে-অ-প-ন-ে-আ-প-ক-ো	לְ-	עַמּוֹן	תְּמִימִים	ও-হ-ী	23
		স-ে-ম-ু-জ-ু	স-ে-অ-ধ-ৰ-ম-	ন-হ-ী-	ম-ে-ন-ে-অ-প-ন-ে-আ-প-ক-ো	স-া-ম-ন-ে-	খ-ু-র-া	হ-ু-র-া	আ-র-থ-া-ম-ে-	
		H5771			H8104			H8549	H1961	

24	וַיַּשְׁבַּ और-लौटाया- יְהוָה यहोवा-ने לִי मुझे קָרְבָּן के-अनुसार-शुद्धता כָּצְדָּקָה के-अनुसार-धार्मिकता-मेरी	לְנַגְּדָה ले-सामने הַדָּבָר हाथों-मेरे בְּכָרְבָּן के-अनुसार-शुद्धता	לְנַגְּדָה ले-सामने הַדָּבָר हाथों-मेरे בְּכָרְבָּן के-अनुसार-शुद्धता	H5048	H3027	H1252	H6664	H3068	H7725	
25	עַמְּמִים खरा-होगा खरे पुरुष के-संग- भक्ति-दिखाएगा भक्त के-संग-	תְּהִימָה खरा-होगा खरे पुरुष के-संग- भक्ति-दिखाएगा भक्त के-संग-	תְּהִימָה खरा-होगा खरे पुरुष के-संग- भक्ति-दिखाएगा भक्त के-संग-	H8552	H8549	H1399	H2623			
26	עַמְּ टेढ़ा-होगा टेढ़े और-के-संग- शुद्ध-होगा शुद्ध	תְּהִתְפְּתַל टेढ़ा-होगा टेढ़े और-के-संग- शुद्ध-होगा शुद्ध	תְּהִתְפְּתַל टेढ़ा-होगा टेढ़े और-के-संग- शुद्ध-होगा शुद्ध	H6617	H6141	H1305	H1305			
27	כִּיר क्यांकि- תְּהִתְפְּתַל नीचा-करेगा घमण्डी और-आँखों-को बचाएगा दीन -लोगों-को हाता तू	תְּשִׁפְיֵל नीचा-करेगा घमण्डी और-आँखों-को बचाएगा दीन -लोगों-को हाता तू	תְּשִׁפְיֵל नीचा-करेगा घमण्डी और-आँखों-को बचाएगा दीन -लोगों-को हाता तू	H8213		H3467	H6041			
28	כִּיר क्यांकि- תְּהִתְפְּתַל अंधेरा-मेरा प्रकाशित-करेगा मेरे-एलोहीम यहोवा दीपक-मेरा जलाएगा तू	תְּהִתְפְּתַל अंधेरा-मेरा प्रकाशित-करेगा मेरे-एलोहीम यहोवा दीपक-मेरा जलाएगा तू	תְּהִתְפְּתַל अंधेरा-मेरा प्रकाशित-करेगा मेरे-एलोहीम यहोवा दीपक-मेरा जलाएगा तू	H2822	H5050	H0430	H3068	H0215		
29	כִּיר क्यांकि- תְּהִתְפְּתַל दीवार-पर कूदूगा- और-मे-एलोहीम-मेरे सेना-पर दौड़ूगा मे-तुझ किर क्यांकि-	תְּהִתְפְּתַל दीवार-पर कूदूगा- और-मे-एलोहीम-मेरे सेना-पर दौड़ूगा मे-तुझ किर क्यांकि-	תְּהִתְפְּתַל दीवार-पर कूदूगा- और-मे-एलोहीम-मेरे सेना-पर दौड़ूगा मे-तुझ किर क्यांकि-	H1801	H0430	H1416	H7323			
30	הַאֲלָל एल תְּהִתְפְּתַל शरण-लेनेवालों ले-सब-को है-वह ढाल ताया-हुआ यहोवा-का वचन- मार्ग-उसका सिद्ध-है हल	הַאֲלָל एल תְּהִתְפְּתַל शरण-लेनेवालों ले-सब-को है-वह ढाल ताया-हुआ यहोवा-का वचन- मार्ग-उसका सिद्ध-है हल	הַאֲלָל एल תְּהִתְפְּתַל शरण-लेनेवालों ले-सब-को है-वह ढाल ताया-हुआ यहोवा-का वचन- मार्ग-उसका सिद्ध-है हल	H2620	H3605	H1931	H4043	H1870	H8549	
31	הַאֲלָל एल תְּהִתְפְּתַל एलोहीम-हमारे सिवाय चट्टान और-कैन यहोवा-के म्बलुदी के-अलावा एलोहा कैन क्यांकि	הַאֲלָל एल תְּהִתְפְּתַל एलोहीम-हमारे सिवाय चट्टान और-कैन यहोवा-के म्बलुदी के-अलावा एलोहा कैन क्यांकि	הַאֲלָל एल תְּהִתְפְּתַל एलोहीम-हमारे सिवाय चट्टान और-कैन यहोवा-के म्बलुदी के-अलावा एलोहा कैन क्यांकि	H0430	H2108	H6697	H4310	H1107	H0433	
32	הַאֲלָל एल תְּהִתְפְּתַל मार्ग-मेरा सिद्ध नितन और-देता-है बल-से הַमְּאַרְנוּ कमर-बांधता एल	הַאֲלָל एल תְּהִתְפְּתַל मार्ग-मेरा सिद्ध नितन और-देता-है बल-से הַמְּאַרְנוּ कमर-बांधता एल	הַאֲלָל एल תְּהִתְפְּתַל मार्ग-मेरा सिद्ध नितन और-देता-है बल-से הַמְּאַרְנוּ कमर-बांधता एल	H1870	H8549	H5414	H2428	H0247	H0410	
33	הַמְּשֻׁנָּה बनाता תְּהִתְפְּתַל खड़ा-करता-है-मुझे ऊँचाइयों-मेरी और-पर जैसे-हिरनी-के रुग्न पाँव-मेरे बनाता	הַמְּשֻׁנָּה बनाता תְּהִתְפְּתַל खड़ा-करता-है-मुझे ऊँचाइयों-मेरी और-पर जैसे-हिरनी-के रुग्न पाँव-मेरे बनाता	הַמְּשֻׁנָּה बनाता תְּהִתְפְּתַל खड़ा-करता-है-मुझे ऊँचाइयों-मेरी और-पर जैसे-हिरनी-के रुग्न पाँव-मेरे बनाता	H5975		H1116	H0355	H7272		
34	הַמְּלֹא सिखाता תְּהִתְפְּתַל भुजाओं-से-मेरी पीतल-का धनुष- और-झुकाया-है ले-युद्ध-के-लिए हाथों-मेरे-को मल	הַמְּלֹא सिखाता תְּהִתְפְּתַל भुजाओं-से-मेरी पीतल-का धनुष- और-झुकाया-है ले-युद्ध-के-लिए हाथों-मेरे-को मल	הַמְּלֹא सिखाता תְּהִתְפְּתַל भुजाओं-से-मेरी पीतल-का धनुष- और-झुकाया-है ले-युद्ध-के-लिए हाथों-मेरे-को मल	H2220	H5154	H7198	H5181	H4421	H3027	H3925
35	תְּהִתְפְּתַל बड़ा-किया-है-मुझे וענוּתָה और-नप्रता-तेरी-ने סְעִירָה सम्पाला-है-मुझे וַיְמִינָה और-दाहिने-हाथ-तेरे-ने תְּהִתְפְּתַל उद्धार-तेरे-की לִי मुझे וַתְּהִתְפְּתַל और-दी-है-	תְּהִתְפְּתַל बड़ा-किया-है-मुझे וענוּתָה और-नप्रता-तेरी-ने סְעִירָה सम्पाला-है-मुझे וַיְמִינָה और-दाहिने-हाथ-तेरे-ने תְּהִתְפְּתַל उद्धार-तेरे-की לִי मुझे וַתְּהִתְפְּתַל और-दी-है-	תְּהִתְפְּתַל बड़ा-किया-है-मुझे וענוּתָה और-नप्रता-तेरी-ने סְעִירָה सम्पाला-है-मुझे וַיְמִינָה और-दाहिने-हाथ-तेरे-ने תְּהִתְפְּתַל उद्धार-तेरे-की לִי मुझे וַתְּהִתְפְּתַל और-दी-है-	H6037	H5582	H3225	H3468	H4043	H5414	
36	תְּהִתְפְּתַל टखने-मेरे डगमगाए और-नहीं תְּהִתְפְּתַל नीचे-मेरे कदम-मेरा תְּהִתְפְּתַל चौड़ा-किया-है	תְּהִתְפְּתַל टखने-मेरे डगमगाए और-नहीं תְּהִתְפְּתַל नीचे-मेरे कदम-मेरा תְּהִתְפְּתַל चौड़ा-किया-है	תְּהִתְפְּתַל टखने-मेरे डगमगाए और-नहीं תְּהִתְפְּתַל नीचे-मेरे कदम-मेरा תְּהִתְפְּתַל चौड़ा-किया-है	H7166	H4571	H3808	H8478	H6806	H7337	
37	תְּהִתְפְּתַל नाश-करने-के तक- लौट्टांगा और-नहीं- וַיְשִׁנָּם और-पकड़ूँगा-उन्हें शत्रुओं-का-मेरे אַיִלְבִּי ¹ पीछा-करूँगा	תְּהִתְפְּתַל नाश-करने-के तक- लौट्टांगा और-नहीं- וַיְשִׁנָּם और-पकड़ूँगा-उन्हें शत्रुओं-का-मेरे אַיִלְבִּי ¹ पीछा-करूँगा	תְּהִתְפְּתַל नाश-करने-के तक- लौट्टांगा और-नहीं- וַיְשִׁנָּם और-पकड़ूँगा-उन्हें शत्रुओं-का-मेरे אַיִלְבִּי ¹ पीछा-करूँगा	H3615	H5704	H7725	H3808	H5381	H0341	H7291
38	תְּהִתְפְּתַל पाँवों-मेरे नीचे गिरें कूम उठ יכל सकेंगे और-नहीं- אַמְחַצָּם मारूँगा-उन्हें	תְּהִתְפְּתַל पाँवों-मेरे नीचे गिरें קूם उठ יכל סकेंगे और-नहीं- אַמְחַצָּם मारूँगा-उन्हें	תְּהִתְפְּתַל पाँवों-मेरे नीचे गिरें קूם उठ יכל סकेंगे और-नहीं- אַמְחַצָּם मारूँगा-उन्हें	H7272	H8478	H5307	H3201	H3808	H4272	

